

भा.कृ.अनु.परि.- केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान - क्षेत्रीय केंद्र, मोदीपुरम मेरठ
विश्व पर्यावरण दिवस (05 जून, 2017) का आयोजन

प्रेस विज्ञप्ति

भा.कृ.अनु.परि.- केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान - क्षेत्रीय केंद्र, मोदीपुरम पर दिनांक 05 जून, 2017 को विश्व पर्यावरण दिवस को पर्यावरण जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पर्यावरण जागरूकता विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी की अध्यक्षता केंद्र के संयुक्त निदेशक डॉ मनोज कुमार ने की। इस अवसर पर कार्यालय के सभाकक्ष में पर्यावरण संरक्षण जागरूकता पर एक परिचर्चा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें डा. शांतिस्वरूप, अध्यक्ष मेरठ डहेलिया एवं गुलदाउदी सोसाइटी, मेरठ को मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने अपने सम्बोधन में पर्यावरण दिवस के महत्ता पर प्रकाश डाला। लगतात हो रहे पर्यावरण असंतुलन से अनेकों बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। परिसर पर कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर के भाग लिया तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु अपने-अपने विचार रखे।

इस अवसर पर डॉ संजय रावल, प्रधान वैज्ञानिक ने पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत कार्बनिक खेती को बढ़ावा देने और समेकित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाने की आवश्यकता पर व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार हमने विकास की खातिर पर्यावरण के खिलवाड़ किया है, जिसके फलस्वरूप पर्यावरण असंतुलित हो गया है। इस जलवायु परिवर्तन का असर कृषि उत्पादन पर भी पड़ा है। डॉ नेम सिंह, प्रधान वैज्ञानिक ने खेती में सिंचाई जल को आधुनिक पद्धतियों का उपयोग करने जल संरक्षण करने पर जोर दिया। डॉ लूथरा ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक शोभाकर, सब्जी और फलों के पौधों को लगाने और शुभावसरों पर पौधों का उपहार के रूप में लेने और देने का सुझाव दिया।

अपने सम्बोधन में डॉ मनोज कुमार ने उपस्थित वैज्ञानिकों और तकनीकी अधिकारियों से कृषि भूमि में कार्बनिक अवशेषों का दक्षतापूर्ण उपयोग करके मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया साथ ही पर्यावरण के संरक्षण में वृक्षारोपण और उनका संरक्षण करके सार्थक योगदान देने का आह्वान किया।

इस संगोष्ठी के पश्चात केंद्र पर एक वृक्षारोपण का आयोजन भी किया गया। जिसके अंतर्गत केंद्र के स्टाफ ने संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में वृक्षों का रोपण किया गया। अंत में उपस्थित वैज्ञानिकों, तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों ने विश्व पर्यावरण संरक्षण में अपने सार्थक योगदान देने के लिए शपथ ली। अंत में उन्होंने सभी से एक जागरूक नागरिक के रूप में पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी मानसिकता में बदलाव लाने पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉ अशोक कुमार ने किया। इस अवसर पर डॉ बबिता चौधरी और श्री इस्लाम अहमद का सहयोग रहा।

(मनोज कुमार)
संयुक्त निदेशक

